



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 1983/फाल्गुन 25, 1904

No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 1983/PHALGUNA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1983

सां० कां० नि० 268(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्ररूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० सां०कां०नि० 414(अ) तारीख 15 मई, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 15 मई, 1982 के अधीन प्रकाशित किया गया था जिसमें उस तारीख से जिसको, उस राजपत्र की जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं साठ दिन की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और राजपत्र की प्रतियां 15 मई, 1982 को अमला को उपलब्ध थी।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम,

1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (तृतीय संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगी।

2 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 8 में,—

(क) पहले परन्तुक में "खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1977" शब्दों, काष्ठिका और अंतो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"खाद्य अपमिश्रण निवारण (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1976",

(ख) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति, जो अर्हताप्राप्त सफाई निरीक्षक है और जिसके पास इस रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव है और जिसने पूर्णतः या मानक खाद्य निरीक्षण और नमूना कार्य का कम से कम तीन मास प्रशिक्षण प्राप्त किया है 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र हो सकेगा और यदि उसे इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो, चाहे वह खण्ड (क) से (ग) में अधिकाधिक अर्हताएं पूर्ण न करता हो उस रूप में बना रह सकेगा।"

सं० पी० 15014/15/82-पी०एन० (एफ एड एन) पा० II]

एम०के० मधोकर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1983

**G.S.R. 268(E).**—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15th May, 1982 under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 414(E), dated the 15th May, 1982 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public.

And whereas, the copies of the said Gazette were available to the public on the 15th May, 1982 ;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further

to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :

1. (i) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Third Amendment) Rules, 1983.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 :—

(a) in the first proviso, for the words, brackets and figures "Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1977", the following shall be substituted, namely :—

"Rule 3 of the Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 1976 ;"

(b) for the second proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided further that a person who is a qualified Sanitary Inspector having experience as such for a minimum period of one year and has received at least three months training in whole or in parts in food inspection and sampling work, may be eligible for appointment as food inspector, upto the period ending on the 31st March, 1985 and may continue as such if so appointed even though he does not fulfill the qualifications laid down in clauses (a) to (c)."

[No. P. 15014/15/82-P.H.(FAW) Vol. II]

S. K. SUDHAKAR, Jr. Secy.